



August 13, 2021

To,

The Secretary  
BSE Limited  
The Stock Exchange, Mumbai  
Corporate Relationship Department  
Phiroze Jeejeebhoy Tower,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400001

ISIN: INE417D01012 - IM+ CAPITALS LIMITED

Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In pursuant to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copies of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the 1<sup>st</sup> Quarter ended on June 30<sup>th</sup>, 2021 published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & Jansatta (Hindi Newspaper) on August 13, 2021.

This is for your information and records.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For IM+ Capitals Limited

  
SAKSHI GOEL  
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

GLOBUS POWER GENERATION LIMITED

(Formerly Known as Globus Constructors & Developers Limited)

CIN: L40300RJ1985PLC047105 E-mail: globuscdl@gmail.com Ph: 0141-4025020

Regd Off: Shyam House, Plot No 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

Corp Off: A-60, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028

Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2021

Table with 5 columns: S. NO., PARTICULARS, 3 Months Ended, Preceding 3 Months Ended, Corresponding 3 Months Ended, Year Ended. Rows include Total Income from Operations, Net Profit/(Loss) for the period, Total Comprehensive Income, etc.

NOTES: 1. The Financial Results for the quarter ended 30.06.2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 12/08/2021.

Date : 12.08.2021 Place : NEW DELHI

FOCUS INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED CIN: 115319DL1985PLC021348 Regd. Off: 104, Mukand House, Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033

NOTICE Notice is and is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that the meeting of the Board of Directors of M/s Focus Industrial Resources Limited is scheduled to be held on Saturday, 14th August, 2021 at 10:00 PM at the registered office of the Company, inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results along with the Limited Review Report for the quarter ended June 30, 2021 and to consider any other matter with the permission of Chair.

Form No. INC-26 Advertisement to be published in the newspaper for change of the registered office of the company from one state to another

Advertisement to be published in the newspaper for change of the registered office of the company from one state to another Pursuant to Rule 30 of the Companies Act, 2013

For and on behalf of the Board Akshami Projects Private Limited Sd/- Director

IM+ Capitals Limited Regd. Office: 72, Ground Floor, World Trade Center, Babar Road, Connaught Place, New Delhi-110001. STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2021

1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 12th August, 2021.

By Order of the Board For IM+ Capitals Limited Sd/- Vishal Singhal Whole Time Director

NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED

Regd. Office : Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi - 110 091

Tel: 0120-2516495 Fax : 0120-2516440

CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email : ntbcl@ntbcl.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

Table with 10 columns: Sl. No., Particulars, STANDALONE (Quarter ended, Year ended), CONSOLIDATED (Quarter ended, Year ended). Rows include Total Income from Operations, Profit/(Loss) from operations before tax, Net Profit/(Loss) from continuing operations, etc.

Notes to Financial Results

1. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 11, 2021. The statutory auditors of the Company have carried out a limited review of the financial results for the quarter ended June 30, 2021.

For and on behalf of the Board Akshami Projects Private Limited Sd/- Director

Classifieds

PERSONAL

I, Sushila Gobind Singh Chauhan w/o Gobind Singh Chauhan r/o C-102, Shakti Apartment, Plot No.- 18, Sector-5, Dwarka, Delhi- 110075 have changed my name to Sushila Chauhan.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, KHEM CHAND RANGA S/o Suraj Bhan residing at House No. 37 VPO Rithala, New Delhi 110085, declares that name of my mother has been wrongly written as SANTOSH DEVI in my CTET certificate and DSSSB form.

PUBLIC NOTICE

It is notified for the information that we, Mr. Mohit Ralhan s/o Raja Ram Ralhan and Mrs. Rohini Ralhan w/o Mohit Ralhan r/o C-2/169, FF, Jankapuri - 110058 have lost our buyers sale agreement of DLF Valley Panchkulla 'w/ DVF-E4/3-SF. If anybody find may please contact at 9820234803

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, RAJNI DEVI wife of LATE SUBHASH resident of A-8/9, Lane Krishna Nagar, Delhi-110051, declare that name of my husband has been wrongly written as KULDEEP in my son's AMAN Secondary school Examination mark sheet (Class-X). The actual name of my husband is SUBHASH respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

My clients, AMARJEET KAUR and her husband PALMINDER SINGH r/o D-191, Tagore Garden Extn, New Delhi-110027 has disowned their son MANNAT SINGH PANESAR and his wife RITA SINGH from their all assets and properties. Any person dealing with them shall be doing all at his own risk etc.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED

Registered Office: 27 BKC, C 27, G-Block, BandraKurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400095

Branch Office: Kotak Mahindra Bank Limited, Madhya Marg, 2nd Floor, SCO 153-154-155, Sector-9C, Chandigarh-160009

DEMAND NOTICE

You the below mentioned borrowers, co-borrowers and guarantors have availed loan(s) facility(ies) from Kavya Financial Services Ltd. (KFSL) by mortgaging your immovable properties (securities) and defaulted in repayment of the same. Consequently your defaults your loans were classified as non-performing assets and later KFSL, has vide deed of assignment dated 14.03.2019 assigned to/in favour of Kotak Mahindra Bank Limited (Bank) all its rights, title, interests, benefits, dues receivable from you as per the documents executed by you to avail the said loan(s) along with the underlying security interest created in respect of the securities for repayment of the same.

Place: Ludhiana, Date: 12.08.2021 Sd/- Authorized Officer, Kotak Mahindra Bank Ltd.

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH-II SBI HOUSE, IV FLOOR, 18/4, ARYA SAMAJ ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110 005

E-MAIL : sbi.51521@sbi.co.in

[Rule - 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property (s))

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 04.07.2020 calling upon the borrower/guarantors Smt Mukti Varun S/o Santosh Kumar, House No.50 Sharda Vihar Colony, Bodla, Dehatora, Agra and also at House No.64, Sharda Vihar Colony, Bodla, Dehatora, Agra to repay the amount mentioned in the notice being Rs.18,65,891.81 (Rupees Eighteen Lakh Sixty Five Thousand Eight Hundred Ninety One & Paise 81 Only) as on 04.07.2020 along with future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental cost, charges etc. within 60 days from the date of the said notice.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE / MORTGAGED PROPERTY(S) : House No. 64, Sharda Vihar Colony, Bodla, Agra admeasuring 102.42 Sqm mtr., registered on 03.10.2015 at Bahi No.1, Zild No. 11847 at pages 1 to 36 at serial No. 10557 at Sub registrar link, Agra Sadar in the name of Smt Mukti Varun Bounded as : E- House of Mr Vijay Pal W - House of Mr Bhagwan Singh N - Other's House S - 15 ft wide passage

PLACE : AGRA, DATE : 12-08-2021 AUTHORISED OFFICER, STATE BANK OF INDIA

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH-II SBI HOUSE, IV FLOOR, 18/4, ARYA SAMAJ ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110 005

E-MAIL : sbi.51521@sbi.co.in

[Rule - 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property (s))

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 04.07.2020 calling upon the borrower/guarantors Smt Mala Kumar W/o Shri Ashok Kumar (Prop of M/s Admac International) residing at 3/A, Ram Vatika, West Arjun Nagar, Agra, 2. M/s Admac International, UPSIDC Site - A, 17-18 Sikandra, Agra & at 3/A, Ram Vatika, West Arjun Nagar, Agra also to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2689107.62 (Rupees Twenty Six Lakh Eighty Nine Thousand One Hundred Seven & Paise sixty two only) as on 09.07.2020 along with future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental cost, charges etc. within 60 days from the date of the said notice.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE / MORTGAGED PROPERTY(S) : 1. Residential Property situated at Khasra No. 8 Raj Nagar, Ajjipur, Teh. & Dist. Agra in the name of Smt Mala Kumar W/o Shri Ashok Kumar, Sale deed registered at Sub Registrar IV, Agra, Area 42.26sq mtr at Bahi No.1, Zild - 3207, page 213-234, Sl. No. 1016 on 06.03.2006. Bounded as per Title Deed : E-Other's Property; W-9 ft wide Rasta & Exit; N-Other's Property & S- Other's Property

2. Residential Property situated at Khasra No. 10 Surman Vihar Colony, Khasia, Nai Basti, Agra in the name of Smt Mala Kumar W/o Shri Ashok Kumar, Sale deed Sub Registrar Office, Agra, Area 108.31 sq mtr at Bahi No.1, Zild - 3410; page 303-328; Sl.No. 1849 on 01.04.2002. Bounded as per Title Deed : E- Juj Part of Mazkoo Property; W- Other's Property & S- 15 ft wide Rasta & Exit

PLACE : AGRA, DATE : 12-08-2021 AUTHORISED OFFICER, STATE BANK OF INDIA

PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED

Registered Office: 5th Floor 158 Dani Corporate Park, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400098

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

You the below mentioned borrower, co-borrower have availed loan(s) facility(ies) from Bank/Financial institution more particular described hereunder by mortgaging your immovable properties (securities). Consequently your defaults, your loan accounts were classified as non-performing assets and later vide separate deeds of assignments mentioned below, the same have been assigned to/in favour of Phoenix Arc Pvt. Ltd., (acting as trustee of respective trusts described below) along with all rights, title, interests, benefits, dues receivable from you as per the document executed by you to avail the said loan(s) with the underlying security interest created in respect of immovable properties for repayment of the same. Phoenix Arc has, pursuant to the said assignment and for the recovery of the outstanding dues, issued demand notice under section 13(2) of the securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act, 2002 (the act), the contents of which are being published herewith as per section 13(2) of the act read with rule 3(1) of the security interest (enforcement) rules, 2002 as and by way of service upon you. Details of the date of assignment, trusts, borrower, co-borrowers, properties mortgaged, outstanding dues, demand notice sent under section 13(2) and amount claimed there are given as under:

Table with 4 columns: S/Sl No, Name and Address of the Borrower, Co-Borrower/ Guarantor, Loan Account No., Loan Amount, Details of the Securities, Name of Lender, Date of Assignment, Details of Trusts, Demand Notice Date, Outstanding Dues. Rows include Balvir Singh, Smt Mr. Savinder Singh & Mr. Savinder Singh, Smt Mr. Burh Singh & Mrs. Sirmiranjit Kaur, W/o Mr. Balvir Singh, etc.

Place: Ludhiana, Date: 12.08.2021 Sd/- Authorized Officer, For Phoenix ARC Private Limited

**इंडियन बैंक**  
**Indian Bank**  
 एन-ए/18, सेक्टर 63, नोएडा, गौतमबुध नगर उ.प्र.-201301  
 ई-मेल: noida63@indianbank.co.in  
 फोन नं. 0120-2427115

श्री पारल कोशिक, पुनर्गठन कोशिक (प्रोविडेंट फंड स्ट्रॉलवाट फंड)  
 प्रमुख कार्यालय: नवम्बर 2021 खाता नाम एवं खाता नं. प्र. स्ट्रॉलवाट फंड, खाता नं. 6387063302- विलफुल डिफॉल्ट्स का प्रकाशन उपरोक्त ऋण खाता के संदर्भ में आपने ऋण के पुनर्गठन में चुक कर है एवं परिणामस्वरूप आबोआई द्वारा निर्दिष्ट विलफुल डिफॉल्ट्स पर बास्टर समुल्लर में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको विलफुल डिफॉल्ट्स घोषित किया गया है। उपरोक्त के अधिकार में आर बी आई के दिशानिर्देशों के अनुसार नीचे दिये गये प्रारूप में व्यापक रूप से प्रस्तावित समाचार पत्र के साथ ही साथ बैंक की वेबसाइट में विलफुल डिफॉल्ट्स के रूप में आपका नाम प्रकाशित करने का फैसला किया गया है। विलफुल डिफॉल्ट्स के रूप में ऋणधारक/माटीनर/निदेशक/पाटीनर/निदेशक (पूर्व/वर्तमान) का नाम: क) श्री पारल कोशिक, पुनर्गठन कोशिक  
 प्रत्येक के पाते सहित निवेदन/प्रत्येकेशन का विवरण: क) मकान नं. 343, सरफाबाद, दादरी, जी.बी. नगर, उ.प्र., (ख) मकान नं. सी-4/7, मामरी एक्स्टेंशन, भजनपुर, सीलमपुर, दिल्ली-110053  
 प्रतिभूति का विवरण: मकान नं. 343, सरफाबाद, दादरी, जी.बी. नगर, उ.प्र. में स्थित आवासीय सम्पत्ति का इन्क्रेडिटबल माटीनर 27.07.2021 को बुक वैल्यू- रु. 2396034.56 लाख  
 27.07.2021 को बकाया राशि: रु. 2396034.56 लाख तथा व्याज आप व्याज तथा अन्य चार्ज के साथ रु. 2396034.56 लाख की गति का बैंक के भुगतान करने के लिये संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी है। उक्त बकाये की वसूली के लिये बैंक द्वारा शुरू की गई उपायों के भाग के रूप में पन्द्रहवां हप्त आपको सलाह देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अद्यतन व्याज तथा चार्ज के साथ इस ऋण का पुनर्गठन करें जिसमें विफल होने पर बैंक उसके परिणामों के लिये आपको जोडित पर आगे कोई सूचना दिये बिना समाचार पत्र/बैंक की वेबसाइट में उपरोक्त रूप में आपका नाम तथा फोटोग्राफ प्रकाशित करने की कार्यवाही करेगा।  
 आपका विश्वास भाजन  
**शाखा प्रबंधक**

**ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED**  
**CIN: L65993DL1989PLC035409**  
**Regd. Office: 5th Floor, Unit No. 506, Building No. 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi-110019 | Phone: +91-11-40517610**  
**Website: www.aimeil.in E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com**

**EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2021**

Sl. No.	Particulars	(Rupees in Lacs)			
		Quarter Ended 30/06/2021 (Unaudited)	Quarter Ended 31/03/2021 (Audited)	Quarter Ended 30/06/2020 (Unaudited)	Year Ended 31/03/2021 (Audited)
1.	Total Income from operations	1,152.32	3,658.27	426.69	7,432.56
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(2639.76)	(1716.97)	(2693.52)	(9906.03)
3.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(2639.76)	(1716.97)	(2693.52)	(9906.03)
4.	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(2639.76)	(1716.97)	(2693.52)	(9906.03)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(2639.76)	(1711.96)	(2693.52)	(9901.02)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1161.25	1161.25	1161.25	1161.25
7.	Other Equity	-	-	-	(34,527.72)
8.	Earnings per Share( of Re 10/- each) for continuing and discontinued operations)- a Basic b Diluted	(22.73) (22.73)	(14.74) (14.74)	(30.30) (30.30)	(85.30) (85.30)

**Notes to financial result:**

- The Financial Results have been prepared in accordance with the principles and procedures of Indian Accounting Standards ("Ind AS") as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as specified in Section 133 of the Companies Act, 2013.
- As the Company has only one Operating Segment, disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable.
- The above results were reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on August 11, 2021 and the Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the same.
- Trade Payables, Trade Receivables and other Loans and Advances given or taken continued to be subject to reconciliation and confirmation. Further Term Loan Accounts with the banks are also subject to reconciliation / confirmation.
- The Company's financial statements are prepared on a going concern basis, which contemplates the realization of assets and the satisfaction of obligations in the normal course of business. However, the company has accumulated losses and negative net worth as on 30/06/2021. The current liabilities are exceeding the current assets due to the reason that the outstanding term loans including accrued interest are accounted under the Head of Current liabilities as the same has been termed as NPA by the lenders. The Company is in active discussion with the lenders for resolution of the debt. Considering the continuity of the operations, generation of positive EBITDA, Central Government trust on the development of Infrastructure projects in the country and the encouraging order book of the company, maintaining a going concern basis of accounting is appropriate.
- The Company has outstanding working capital loan of Rs.8793.25 Lakhs and term loans aggregating to Rs.40811.75 Lakhs including interest accrued and due thereon from Banks which have been declared as non-performing assets (NPA) by these lenders in earlier years as the repayments against these loans have become overdue. As part of their process, the lenders have taken symbolic possession of the assets of the Company on 19/02/2021 and contemplating follow on processes. The company is also trying to resolve this through OTS route. Further, the Company has classified all its borrowings from banks as current liabilities under 'Other Financial Liabilities'.
- Advances from Customers of Rs 5357.12 Lakhs included in "Other Current Liabilities" of the Statement include a sum of Rs.5266.01 Lakhs from parties with whom no business transactions have taken place after Financial Year 2017-18.
- During the quarter ended 30/06/2021, the company's operations were moderately effected due to economic slowdown caused by the Covid-19 pandemic. However, based on its assessment of business/economic conditions, the company expects to recover the carrying value of all its assets including inventories, receivables and loans and advances in the ordinary course of its business. The company continues to evaluate the pandemic related uncertainty arising from the on-going second wave and update its assessment.
- The figures for the previous period have been re-grouped/re-classified to make them comparable with the figures for the current period.
- The above Financial Results for the Quarter ended 30/06/2021 are also available on the website of the Company i.e. www.aimeil.in and the website of BSE i.e. www.bseindia.com

**For Alliance Integrated Metalik Ltd**  
 Sd/-  
**Daljit Singh Chahal**  
 Chairman cum Whole Time Director  
 DIN : 03331560

Date: 11.08.2021  
 Place: New Delhi

**बेजल इन्टरनेशनल लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय: शाप नं 0 1, प्रथम मंजिल, सीक्यू 155, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली- 110042  
 ई-मेल: bazelinternational@gmail.com, CIN: L65923DL1982PLC290287, दूरभाष: 011-69999159, वेबसाइट: www.bazelinternationaltd.com

**30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के उद्धरित अनअंकेषित वित्तीय परिणाम** (रु० लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वार्षिक
		30.06.2021 (अन-अंकेषित)	31.03.2021 (अंकेषित)	
1	संचालन से कुल आय	30.01	18.43	21.70
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष एव/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	13.47	(75.08)	16.58
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (विशेष एव/अथवा असाधारण मदों के बाद)	13.47	(75.08)	16.58
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष एव/अथवा असाधारण मदों के बाद)	9.97	(64.99)	12.27
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	3.48	(67.13)	(35.96)
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सममूल्य रु० 10/- के प्रत्येक)	145.50	145.50	145.50
7	रिजर्व (रिजर्व/सेशन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2020-21 के अंकेषित तुलन पत्र में दर्शाया गया	-	-	1,273.04
8	प्रति शेयर आय (रु० 10/- के प्रत्येक) (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए):			
	मूल:	0.69	(4.47)	0.84
	तरल:	0.69	(4.47)	0.84

**टिप्पणी:**

- कम्पनी केवल एक व्यावसायिक गतिविधि करती है इसलिए आईएनडी के तहत खाण्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
- उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षक सतिमिति द्वारा समीक्षा कर एवं निदेशक मंडल द्वारा उनको सम्मति 11 अगस्त, 2021 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये।
- पिछली अवधि के आंकड़े वर्तमान अवधि के आंकड़े की पुष्टि के लिए जहाँ भी आवश्यक थे, पुनर्गठित/पुनः वर्गीकृत किए गये हैं।
- कम्पनी पर इण्डियन एकाउंटिंग स्टैन्डर्ड 1 अप्रैल, 2019 से लागू है।

मंडल की ओर से  
 कृते बेजल इन्टरनेशनल लिमिटेड  
 हस्ता०/-  
 पंकज डामर  
 (प्रबंध निदेशक)  
 DIN:06479649

तिथि: 13/08/2021  
 स्थान: नई दिल्ली

**दुर्गेश मरचेन्ट्स लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय: डी-251, गुरुकुल प्लेस, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024, Email ID: durgeshmerchants@gmail.com, CIN: L65923DL1984PLC248322, Telephone: 011-68888824, Website: www.durgeshmerchantsltd.com

**30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के उद्धरित अनअंकेषित वित्तीय परिणाम** (रु० लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वार्षिक
		30.06.2021 (अन-अंकेषित)	31.03.2021 (अंकेषित)	
1	संचालन से कुल आय	4.58	5.03	3.56
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष एव/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1.20	(2.21)	2.30
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (विशेष एव/अथवा असाधारण मदों के बाद)	1.20	(2.21)	2.30
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष एव/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.89	(1.63)	1.70
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	(11.77)	10.35	17.10
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सममूल्य रु० 10/- के प्रत्येक)	280.25	280.25	267.00
7	रिजर्व (रिजर्व/सेशन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि 31 मार्च 2021 के अंकेषित तुलन पत्र में दर्शाया गया	-	-	207.96
8	प्रति शेयर आय (रु० 10/- के प्रत्येक) (संचालन जारी एवं बंद करने के लिए):			
	मूल:	0.03	(0.58)	0.06
	तरल:	0.03	(0.58)	0.06

**टिप्पणी:**

- कम्पनी केवल एक व्यावसायिक गतिविधि करती है इसलिए आईएनडी के तहत खाण्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
- उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षक सतिमिति द्वारा समीक्षा कर एवं निदेशक मंडल द्वारा उनको सम्मति 11 अगस्त, 2021 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये। जिसके लिए कम्पनी के संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा रिपोर्ट प्रदान की गई।
- पिछली अवधि के आंकड़े वर्तमान अवधि के आंकड़े की पुष्टि के लिए जहाँ भी आवश्यक थे। पुनर्गठित/पुनः वर्गीकृत किए गये हैं।
- कम्पनी पर इण्डियन एकाउंटिंग स्टैन्डर्ड 1 अप्रैल, 2019 से लागू है।

बोर्ड की ओर से  
 कृते दुर्गेश मरचेन्ट्स लिमिटेड  
 हस्ता०/-  
 रोहित आहुजा  
 प्रबंध निदेशक  
 DIN:07859817

तिथि: 12/08/2021  
 स्थान: नई दिल्ली

**बीएलबी लिमिटेड**  
 सीआईएन: L67120DL1981PLC354823 (गोपरीट सवरुप एनएसई)  
 पंजीकृत कार्यालय: हाउस नं. 4780-81/23, तीर्थवासी रोड, दरियाबाग, नई दिल्ली-110002  
 वेबसाइट: www.blblimited.com, ईमेल आईडी: info@blblimited.com

**30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेषित वित्तीय परिणाम का उद्धरण**

विवरण	समाप्त तिमाही			
	30 जून 21 (अनअंकेषित)	30 जून 20 (अनअंकेषित)	31 मार्च 21 (अंकेषित)	31 मार्च 21 (अंकेषित)
1. प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	4,285	17,674	3,167	53,747
2. अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादन और/अथवा असाधारण मदों से पहले)	304	116	103	404
3. कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादन और/अथवा असाधारण मदों के बाद)	304	116	103	404
4. कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादन और/अथवा असाधारण मदों के बाद)	231	14	94	113
5. अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल)	255	28	93	138
6. इक्विटी शेयर कैपिटल	529	529	529	529
7. पिछले वर्ष की अंकेषित बैलेंस शीट के रूप में दिखाना गया रिजर्व (पुनर्गठित/पुनः वर्गीकृत किये गए रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	7,288
8. प्रति शेयर आय (अनअंकेषित मूल्य रु 1/-) (जारी व बंद प्रचालनों के लिए):				
बी.एस.डी.	0.44	0.03	0.18	0.21
डी.एस.डी.	0.44	0.03	0.18	0.21

**टिप्पणी:**

- 12 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में उपरोक्त अनअंकेषित वित्तीय परिणाम की समीक्षा लेखा सतिमिति द्वारा की गई और उक्तके बाद निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा किया गया।
- सेबी (सूचीयन बाजार एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंज में दक्षिण की गई स्टैन्डर्ड अनअंकेषित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। आधिकारिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट अथवा www.bseindia.com, वेगनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.blblimited.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार  
 कृते बीएलबी लिमिटेड  
 हस्ता०/-  
 (अंशुल मेहरा)  
 कार्यकारी निदेशक  
 DIN: 00014049

दिनांक: 12.08.2021  
 स्थान: नई दिल्ली

**पैन इण्डिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
 (सीआईएन: L72200DL1984PLC017510)  
 पंजीकृत कार्यालय: 711, 7वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001  
 ई-मेल: srghltd@gmail.com, वेबसाइट: http://www.panindiacorp.com दूरभाष नं.: 011-43656567

**30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु लेखापरीक्षित स्टैटिस्टिकल वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश** (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2017 के विनियम 47(1) (बी) के अनुसार)

क्र. सं.	विवरण	30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)		
		30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय (निवल)	-	-	-
2	अवधि हेतु निवल लाभ/हानि (कर, अपवादन तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(1.13)	(95.46)	(1.02)
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/हानि (अपवादन तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(1.13)	(95.46)	(1.02)
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (हानि) (अपवादन तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(1.13)	(95.54)	(1.02)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	(1.13)	(95.54)	(1.02)
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक के फेस वैल्यू)	21,425.65	21,425.65	21,425.65
7	आरक्षित (गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्गठित/पुनः वर्गीकृत आरक्षों को छोड़कर)	(0.00005)	(0.0446)	(0.0000)
8	आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु):			
(अ) मूल		(0.00005)	(0.0446)	(0.0000)
(ब) डाइल्यूटेड		(0.00005)	(0.0446)	(0.0000)

**नोट:**

- (क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु उपर्युक्त लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षक सतिमिति द्वारा की गयी है और 12 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गयी है।
- (ख) जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ तब वर्ष के आंकड़ों को पुनर्गठित/पुनः वर्गीकृत तथा रीकास्ट किया गया है।
- (ग) कम्पनी केवल एक ही सेगमेंट में कार्य करती है।
- (घ) 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्त वर्ष 2020-21 के परिष्कृत में लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा 31 दिसम्बर, 2020 तक वर्ष तक के प्रकाशित आंकड़ों के बीच समतुल्यकारी आंकड़े हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
 कृते पैन इण्डिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
 हस्ता०/-  
 विजयपाल शुक्ला  
 (प्रबंध निदेशक)  
 सीआईएन: 01379220

स्थान: नई दिल्ली  
 तिथि: 12.08.2021

**पैन इण्डिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
 (सीआईएन: L72200DL1984PLC017510)  
 पंजीकृत कार्यालय: 711, 7वीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001  
 ई-मेल: srghltd@gmail.com, वेबसाइट: http://www.panindiacorp.com दूरभाष नं.: 011-43656567

**30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश** (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2017 के विनियम 47(1) (बी) के अनुसार)

क्र. सं.	विवरण	30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)		
		30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय (निवल)	-	-	-
2	अवधि हेतु निवल लाभ/हानि (कर, अपवादन तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(1.13)	(95.46)	(1.02)
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/हानि (अपवादन तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(1.13)	(95.46)	(1.02)
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (हानि) (अपवादन तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(1.13)	(95.54)	(1.02)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	(1.07)	(95.19)	(1.10)
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक के फेस वैल्यू)	21,425.65	21,425.65	21,425.65
7	आरक्षित (गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्गठित/पुनः वर्गीकृत आरक्षों को छोड़कर)	(0.00005)	(0.0444)	(0.0005)
8	आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु):			
(अ) मूल		(0.00005)	(0.0444)	(0.0005)
(ब) डाइल्यूटेड		(0.00005)	(0.0444)	(0.0005)

**नोट:**

- (क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु उपर्युक्त लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षक सतिमिति द्वारा की गयी है और 12 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गयी है।
- (ख) जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ तब वर्ष के आंकड़ों को पुनर्गठित/पुनः वर्गीकृत तथा रीकास्ट किया गया है।
- (ग) कम्पनी केवल एक ही सेगमेंट में कार्य करती है।
- (घ) 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्त वर्ष 2020-21 के परिष्कृत में लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा 31 दिसम्बर, 2020 तक वर्ष तक के प्रकाशित आंकड़ों के बीच समतुल्यकारी आंकड़े हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
 कृते पैन इण्डिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
 हस्ता०/-  
 विजयपाल शुक्ला  
 (प्रबंध निदेशक)  
 सीआईएन: 01379220

स्थान: नई दिल्ली  
 तिथि: 12.08.2021

**आईएम + कैपिटल्स लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय: 72, इन्डियन स्ट्रीट, दादर रोड, कानार प्लेस, नई दिल्ली-110001  
 सीआईएन: L74140DL1991PLC340407 ई-मेल: imcapitalscompliances@gmail.com, वेबसाइट: www.imcapitals.com

**समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैटिस्टिकल और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण 30 जून 2021** (रुपये लाख में प्रति शेयर आय को छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	स्टैटिस्टिकल		समेकित	
		समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही
		30.06.2021 (अनअंकेषित)	31.03.2021 (अंकेषित)	30.06.2021 (अनअंकेषित)	31.03.2021 (अंकेषित)
1.	प्रचालन से कुल आय	80.89	64.65	97.45	114.65
2.	कर पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (हानि)	52.49	42.38	54.14	(17.15)
3.	कर पश्चात अतिरिक्त हेतु निवल लाभ (हानि) (अपवादन तथा असाधारण मदों के पश्चात)	52.49	42.38	54.14	(17.15)
4.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित)	52.49	43.31	54.14	(16.23)
5.	इक्विटी शेयर पूंजी	350.16	350.16	350.16	350.16
6.	आय प्रति शेयर (अधिकृत नहीं):				
	बेसिक (रु.)	1.50	1.21	1.55	(0.49)
	डाइल्यूटेड (रु.)	1.50	1.21	1.55	(0.49)

**नोट:**

- उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा सतिमिति द्वारा समीक्षा और सतिमिति की गई और निदेशक मंडल द्वारा 12 अगस्त, 2021 को आयोजित उक्तकी बैठक में अनुमोदित किया गया। सतिमिति लेखा परीक्षकों में उपरोक्त वित्तीय परिणामों की सतिमिति समीक्षा की है।
- उपरोक्त सेबी (सूचीयन बाजार एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साथ अलेखापरीक्षित तिमाही परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। अलेखापरीक्षित स्टैटिस्टिकल और समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्टॉक एक्सचेंज